

Market

Borrowings

इतिहास

Loan


asset

Internal

External

RBI

GOI



S Gr B - 2028

S Gr B - 2033

✓
1 & 2



ND CR


Non Debt

3 & 4


↓
5 & 7 ↑

Capital
Receipts

Capex



722
(As per
Union Budget
2023-24)



Note - This classification
has been working since
2017-18.
अह वर्गीकरण 2017-18 से
कार्य कर रहा है।

Effective Capital Exp.
प्रभावी पूँजीगत खर्च



Total Capital
Expenditure

+

Capital Grants
to States

पूँजीगत
अनुदान

Grants to be
on the condition

1. Revenue Deficit राजस्व घाटा
↓

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\text{Total Revenue Expenditure}} & - & \boxed{\text{Total Revenue Receipts}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ ₹ 200 & - & ₹ 100 = ₹ 100 \end{array}$$

2. Effective Revenue Deficit प्रभावी राजस्व घाटा -



$$\begin{array}{|c|} \hline \text{राजस्व} \\ \hline \text{घाटा} \\ \hline \text{Revenue} \\ \hline \text{Deficit} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{राज्यों को} \\ \hline \text{पूँजीगत अनुदान} \\ \hline \text{Capital grants} \\ \hline \text{to states} \\ \hline \end{array}$$

calculate the fiscal deficit.

इस प्रकार, राजकोषीय घाटे की गणना करते समय बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सरकार की कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है।

Example -



D. $\rightarrow$ ₹ 200 —

• D. → ₹ 200 -

3. D. ^{*} → ₹ 300 -

τ_{25} τ_{25} τ_{25} τ_{25} τ_{50} τ_{50}

$$\text{₹ } 100 = \text{₹ } 100$$
$$\lim_{t \rightarrow 200} f(t) = 0$$
$$₹ 200 = ₹ 100$$

5. Primary Deficit प्राथमिक घाटा



F.D. - Interest Payments

राज. घाटा - व्याज भुगतान

मा सुझान सुखमोप - चक्रवर्ती सामंत
द्वारा रिच गजा पा ।

Imp. →

The F. D. shows the
borrowing requirement of the
govt.

राजकोषीय घाटा सरकार की
उधार आवश्यकताओं को दिखाता है।

Q. निम्न में से कौनसा चार्ट
सरकार की उधार आवश्यकताओं
को दिखाता है ?

(a) R.D.

(b) E.R.D.

✓ (c) F.D.

(d) P.D.

the zero budget deficit.

वर्तमान में सरकार शून्य बजट घाटे की नीति का अनुकरण कर रही है।

Imp. - The budget deficit is also called the monetised deficit.

बजट घाटा मॉनेटाइज्ड घाटा भी कहलाता है।